

रोलिंग विज्ञापन संख्या 2024-04-09 /

ROLLING ADVT. NO. 2024-04-09

परियोजना शीर्षक :- "मशीन लर्निंग मॉडल्स टू प्रिडिक्ट एमआईसी इन इंडियन प्रायोरिटी पैथोजन्ज़ एंड आइडेन्टिफिकेशन ऑफ नोवेल एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेकेनिज़्म्स "

परियोजना कोड:- गैप -0242

पद:- प्रोजेक्ट टेक्निकल सुपोर्ट - III = 02

अनिवार्य योग्यता: 1. संबंधित विषय/क्षेत्र में तीन वर्षीय स्नातक एवं संबंधित विषय/क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर ।

2. इंजीनियरिंग/आईटी/सीएस के लिए प्रथम श्रेणी में चार वर्ष की स्नातक डिग्री एवं तीन साल का अनुभव
वांछनीय: नेक्स्ट जेनरेशन अनुक्रम डेटा विश्लेषण में अनुभव। मशीन लर्निंग और एआई विधियों में पूर्व अनुभव अपेक्षित है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़्म्स (वेट-लैब) में काम करने का व्यावहारिक अनुभव अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा।

अधिकतम आयु :- 35 वर्ष

मासिक परिलब्धियां- रूपये 28, 000/- एवं एचआरए स्वीकार्य के रूप में

पद: प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट-II (नॉन-मेडिकल)=01

अनिवार्य योग्यता: 1. एकीकृत पीजी डिग्री सहित प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री एवं पीएचडी अथवा तीन साल का अनुभव

2. एकीकृत पीजी डिग्री सहित द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री एवं पीएचडी तथा तीन साल का अनुभव

3. इंजीनियरिंग/आईटी/सीएस के लिए चार साल के लिए प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री एवं तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: नेक्स्ट जेनरेशन अनुक्रम डेटा विश्लेषण में अनुभव। मशीन लर्निंग और एआई विधियों में पूर्व अनुभव अपेक्षित है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़्म्स (वेट-लैब) में काम करने का व्यावहारिक अनुभव अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा।

अधिकतम आयु :- 40 वर्ष

मासिक परिलब्धियां- रूपये 67, 000/- एवं एचआरए स्वीकार्य के रूप में

प्रशासनिक अधिकारी

Project Titled: "Machine Learning Models to Predict MIC in Indian Priority Pathogens & Identification of Novel Antimicrobial Resistance Mechanisms"

Project Code: GAP-0242

Position: Project Technical Support-III=02

Essential Qualification: 1. Three Years Graduate in relevant subject/ field+ three years experience or PG in relevant subject/field.

2. For Engineering/IT/CS- First Class Four Years Graduate Degree + Three Years Experience

Desirable: Experience in next generation sequence data analysis. Previous experience in Machine learning and AI methods is expected. Hands on experience in handling pathogenic organisms (wet-lab) will be added advantage.

Upper Age limit (years) - 35

Monthly Emoluments: Rs. 28,000/- +HRA, as admissible.

Position: Project Research Scientist-II (Non-Medical) =01

Essential Qualification: 1. First Class Post Graduate Degree, including the integrated PG degrees, with three Years Experience or PhD.
2. Second Class Post Graduate Degree, including the integrated PG degrees, with PhD and three Years experience,
3. For Engineering/IT/CS- First Class Graduate degree for four years with three years experience

Desirable: Experience in next generation sequence data analysis. Previous experience in Machine learning and AI methods is expected. Hands on experience in handling pathogenic organisms (wet-lab) will be added advantage.

Upper Age limit (years) - 40

Monthly Emoluments: Rs. 67,000/- +HRA, as admissible.

ADMINISTRATIVE OFFICER